

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 1966/आश्विन 5, 1888

No. 306]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1966/ASVINA 5, 1888

इस भाग में जिस पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 27th September 1966

S.O. 2928.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been, or is likely to be, a substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Lakshmiratan Cotton Mills Company Ltd., Kanpur (Uttar Pradesh State), for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:

1. Shri K. Srinivasan—Chairman.
2. Shri N. D. Bhatia—Member.
3. Shri R. Seahadri—Member-Secretary.

[F. No. 2(23)Tex(B)/66.]

A. V. VENKATESWARAN, Jt. Secy.

(1385)

